



जनसम्पर्क कार्यालय : एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

समाचार

पावर ट्रांसमिशन कंपनी इस वर्ष बनाएगी 31 सब स्टेशन और दो हजार सर्किट किलोमीटर से अधिक का ट्रांसमिशन नेटवर्क रेल ट्रेक्शन लाइनों का कार्य समय पर करना सर्वोच्च प्राथमिकता



जबलपुर, 3 फरवरी। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एवं मेंटेनेंस प्लानिंग की समीक्षा बैठक आज नयागांव स्थित स्काडा कंट्रोल सेंटर में प्रबंध संचालक श्री पी. ए. आर. बेन्डे की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वर्तमान में निर्माणाधीन उच्चदाब (एचटी)

पारेषण लाइनों के निर्माण एवं उन्हें समय पर उर्जीकृत करने पर गहन विचार विमर्श हुआ। बैठक में पावर ट्रांसमिशन कंपनी मुख्यालय के संबंधित विभाग प्रमुख एवं मैदानी क्षेत्र के 20 अधीक्षण अभियंताओं ने निर्माण कार्य से संबंधित विषयों पर पावर पाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से विचार विमर्श किया।

पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक श्री बेन्डे ने कहा कि वर्ष 2018 में ट्रांसमिशन कंपनी ने स्वयं के 31 अति उच्चदाब (ईएचटी) सब स्टेशन एवं लगभग 2000 सर्किट किलोमीटर से भी अधिक अति उच्चदाब लाइनों के साथ उर्जीकृत करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के साथ ही रेलवे के लिए भी ट्रेक्शन लाइनें समय पर पूरा करने का चुनौतीपूर्ण कार्य करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में सभी अभियंताओं ने निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।

बैठक में मानसून पूर्व मेंटेनेंस प्लानिंग की समीक्षा की गई। मेंटेनेंस के संबंध में श्री पी. ए. आर. बेन्डे ने निर्देश दिए कि मेंटेनेंस के कार्य समय पर पूर्ण कर लिए जाएं और इस संबंध में कोई ढिलाई ना बरती जाए।

समीक्षा बैठक में मुख्य अभियंता श्री सुनील तिवारी, श्री एफ. डी. ठाकुर, श्री एम. के. नुनहारिया, श्री एम. के. जैतवाल, श्री एस. पी. गुप्ता, श्री एस. के. गायकवाड़ एवं प्रदेश भर से आए अधीक्षण अभियंताओं ने कार्यों की प्रगति पर चर्चा की।

समाचार क्रमांक: 89/2018

(राकेश पाठक)

वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी